



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 307) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

10 जनवरी 2014

सं0 1891—प्राचीन झखड़ी महादेव मंदिर, गोला रोड, गजाधरचक, दानापुर, पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक मंदिर है, जिसकी निबंधन सं0— 4198 है।

इस न्यास के संबंध में स्थानीय जनता से प्राप्त आवेदन दिनांक 13/08/12 पर अंकित मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार दिनांक 14/08/12 को इस मंदिर का निबंधन किया गया। तत्पश्चात् पुनः स्थानीय जनता का एक आवेदन दिनांक 27/09/12 को प्राप्त हुआ, जिसमें आम सभा कर (उनके पदनाम सहित) ग्यारह सदस्यीय समिति के गठन का प्रस्ताव पर्षद कार्यालय को प्राप्त हुआ। इस आवेदन में अंकित ग्यारह सदस्यों के चरित्र सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक—1407, दिनांक 13/10/12 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना को पत्र दिया गया। इसके अनुपालन में अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना ने अपने पत्रांक—3704/सा, दिनांक 23/09/13 द्वारा उक्त ग्यारह व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में अपना प्रतिवेदन कार्यालय को सौंपा, तथा आवेदन में वर्णित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलने एवं आगे की कार्यवाई हेतु लिखा।

इस प्रकार इस न्यास के सुचारु प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा—32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है। अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए प्राचीन झखड़ी महादेव मंदिर, गोला रोड, गजाधरचक, दानापुर, पटना के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “प्राचीन झखड़ी महादेव मंदिर न्यास योजना, गोला रोड, गजाधरचक, दानापुर, पटना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “प्राचीन झखड़ी महादेव मंदिर न्यास समिति, गोला रोड, गजाधरचक, दानापुर, पटना” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
 8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तारित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
 9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
 10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी । न्यास समिति को न्यास की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा ।
 11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) श्री दिनेश कुमार मेहता	—	अध्यक्ष
पिता— स्व० राम खेलावन मेहता, पता— गजाधरचक, मो०— 9334277637		
(2) श्री छोटे लाल सिंह	—	उपाध्यक्ष
पिता— स्व० राम ईश्वर सिंह, पता— गजाधरचक, मो०— 934858786		
(3) श्री शक्ति कुमार	—	सचिव
पिता— श्री संतोष कुमार, पता— झखड़ी महादेव, मो०— 9905286612		
(4) श्री नारायण प्रसाद सिंह	—	कोषाध्यक्ष
पिता— स्व० राम किशुन सिंह, पुलिस कॉलोनी, मो०— 9771411151		
(5) श्री संतोष कुमार मेहता	—	सदस्य
पिता— स्व० राम सेवक मेहता, पता— झखड़ी महादेव, मो०— 9334447174		
(6) श्री जयंत सिंह	—	“
पिता— श्री जितेन्द्र सिंह, पता— गजाधरचक, मो०— 7488516847		
(7) श्री उमेश कुमार सिंह	—	“
पिता— श्री ललित सिंह, पता— झखड़ी महादेव, मो०— 9693171065		
(8) श्री सुनील ठाकुर	—	“
पिता— स्व० उत्तम साव, पता— झखड़ी महादेव, मो०— 7549617540		
(9) श्री सुनील कुमार	—	“
पिता— स्व० अलख ठाकुर, पता— झखड़ी महादेव, मो०— 8651867792		
(10) श्री अखिलेश कुमार सिन्हा	—	“
पिता— स्व० नवल किशोर प्र० सिन्हा, गजाधरचक, मो०— 9097787040		
(11) श्री कुन्दन कुमार	—	“
पिता— श्री दिनेश कुमार मेहता, पता— गजाधरचक, मो०— 9905293226		

उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 01/02/2014 से 05 वर्ष की होगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 307-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>